

INDIA






3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Differ

Coun



वर्णों के उच्चारण स्थान व इनके वर्ग



उच्चारण स्थानों के अनुसार इनके वर्ग इस प्रकार हैं:-

वर्ग	वर्ण	उच्चारण स्थान	वर्ण का नाम
क वर्ग	क, ख, ग, घ, ङ	कंठ	कंठ्य
च वर्ग	च, छ, ज, झ, ञ	तालु	तालव्य
ट वर्ग	ट, ठ, ड, ढ, ण	मूर्धा	मूर्धन्य
त वर्ग	त, थ, द, ध, न	दाँत	दंत्य
प वर्ग	प, फ, ब, भ, म	ओष्ठ	ओष्ठ्य

ङ, ञ, ण, न, म व्यंजन वर्णों का उच्चारण नासिका के साथ-साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दाँत, ओष्ठ से स्पर्श होता है। इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं।

PRONOUN

A noun is disguise !

I

him

her

me

we

he

it

She

they

us

them

you



HEALTHY
BODY
HEALTHY
MIND

THINK
MORE

एक ही मत करो सपट,
कैसे मैं होगा सपट.

ALWAYS
SPEAK
THE TRUTH

सुनो जो कहें ?
जब
किसी को भी मत ठीक

अच्छी आदतें

- 1. प्रतिदिन साफ़ हाथों को धोना और दाँतों को ब्रश करना।
- 2. प्रतिदिन साफ़ कपड़े पहनना और सफ़ाई के लिए साबुन का उपयोग करना।
- 3. प्रतिदिन साफ़ जूते पहनना और सफ़ाई के लिए साबुन का उपयोग करना।
- 4. प्रतिदिन साफ़ कानों को धोना और सफ़ाई के लिए साबुन का उपयोग करना।
- 5. प्रतिदिन साफ़ आँखों को धोना और सफ़ाई के लिए साबुन का उपयोग करना।
- 6. प्रतिदिन साफ़ नाक को धोना और सफ़ाई के लिए साबुन का उपयोग करना।
- 7. प्रतिदिन साफ़ कानों को धोना और सफ़ाई के लिए साबुन का उपयोग करना।
- 8. प्रतिदिन साफ़ आँखों को धोना और सफ़ाई के लिए साबुन का उपयोग करना।
- 9. प्रतिदिन साफ़ नाक को धोना और सफ़ाई के लिए साबुन का उपयोग करना।
- 10. प्रतिदिन साफ़ कानों को धोना और सफ़ाई के लिए साबुन का उपयोग करना।

RESPECT
YOUR
SELF

एक ही मत करो सपट,
कैसे मैं होगा सपट.

CLEANLINESS
IS
NEAR
TO
GODLINESS



Absence - presence

Ability - disability

Bravery - cowardice

Cruelty - kindness

Day - night

Death - life

Dawn - dusk

Depth - height

Fall - rise

Slavery - freedom

Victory - defeat

Success - failure

Light - darkness

Slavery - freedom

Victory - defeat

Success - failure

Light - darkness

Weak - strong

Able - unable

Active - inactive

Cool - warm

Dead - alive

Elegant - inelegant

Eligible - ineligible

14 28 42 56 70 84 98 112 126 140

13 26 39 52 65 78 91 104 117 130

12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

11 22 33 44 55 66 77 88 99 110

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80



7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50







Ve

EAT FRUITS VEGETABLES AND BE HEALTHY

एक ही तीन एक दो तीन
चार पांच छह सात अठार
नवसे दस ही एकदस
बारके सोके और फल
खाने सेहतमंद खाए।
सुखे फल से आयरन
मिले पर से आयरन
कमी न आवे।
आप हेर फल खाने
आप हेर फल को
आप रखना ओ बच्ची
पद चकमा।

देखो कितना
आम रसीला,
कितना ईसका
पीला-पीला
लगता कितना
ताजा है
आम फलों का
राजा है।

सब लभों को भाता है
जो रोज खाने खाता है
रोगी से दूरी पाता है
पढ़ने को दोष भाता है।

Health is wealth

हरा हरा है मेरा रंग
आयतन खुला
मेरे रंग
मुझे खाने
खुल बढ़ाओ
ताकत वाले तुम
करनाओ।

मैं सब्जियों की
रानी हूँ मेरा रंग
सुनने नरा पना है
विटामिन A का
मुझे दोगट
आंखों को रोने
बनाओ।

गोल गोल मे लाल रंग
मिलकी खाने गोल रंग
खुल बढ़ाओ लाल रंग
ताकत लाल लाल रंग।

मैं हूँ आलू राजा
मिर्चिबिड़त बोसा
मुझे जो भी खाना
हो जासगा ताकतबाल।

